

थाना बीसलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी चोरी की मोटरसाइकिल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीसलपुर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11/07/2021 को एसएसआई तेजपाल सिंह व एसआई उमेश कुमार मय हमराही कर्मचारी के थाना क्षेत्र में रोकथाम जुर्म जरायम चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन में मामूर थे जब पुलिस टीम ईदगाह चौराहे पर मामूर थे जब थाना स्थानीय की पुलिस टीम क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ईदगाह चौराहे पर पहुँची तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने हेतु रसियाखानपुर की तरफ से आ रहे है , यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते है । मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके बीसलपुर पुलिस टीम मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिये । भडरिया मोड पर अपनी गाडी सडक के किनारे आड में खडी करके तथा सडक पर बैरियर लगाकर मोटरसाइकिल आने का इन्तेजार करने लगे । कुछ ही देर बाद रसियाखानपुर की ओर से दो मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी तभी मुखबिर ने बताया कि साहब यही दोनो मोटरसाइकिल चोर है , जो मोटरसाइकिल बेचने जा रहे है । जैसे ही दोनो मोटरसाइकिल चालक नजदीक आये तभी रूकने का इशारा किया तो बैरियर के पास आकर दोनो मोटरसाइकिल चालक रूक गये । जिसके बाद हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर दोनो मोटरसाइकिल चालको को मय मोटरसाइकिल के पकड लिया । पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुए मोटरसाइकिल के कागज तलब किये गये तो नही दिखा सके सख्ती से पूछने पर बताया कि साहब ये मोटरसाइकिले चोरी की है , कुछ ही दिन पहले हमने ये मोटरसाइकिले चोरी की थी जिनको आज हम बेचने के लिए ले जा रहे थे तथा बताया कि साहब हम लोग नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी कागज बनाकर चोरी की गाडी बेच देते है इस गाडी के नम्बर भी हमने बदल दिये है । अभियुक्त गणो को भडरिया मोड के पास समय करीब 17.45 बजे मय चोरी के मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

➤ बरामदगी अभियुक्तगण:-

1. अभियुक्त राजू पुत्र मुनीश्वर निवासी ग्राम बरसिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल काले रंग की सुपर स्प्लेण्डर जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट UP 26A 2448 ।
2. तालिब पुत्र ताज अली निवासी ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल प्लेटिना रंग काला जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट UP 26F 0602 ।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त राजू पुत्र मुनीश्वर निवासी ग्राम बरसिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
 - मु0अ0सं0 317/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना बीसलपुर
2. तालिब पुत्र ताज अली निवासी ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
 - मु0अ0सं0 178/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बीसलपुर
 - मु0अ0सं0 317/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना बीसलपुर
 - मु0अ0सं0 374/17 धारा 379/429 व 3/8 सीएस एक्ट थाना खुदागंज जिला शांजहाँपुर
 - मु0अ0सं0 631/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर

➤ पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह
2. उ0नि0 श्री उमेश कुमार
3. हे0का0 30 उमेशचन्द्र शर्मा
4. हे0का0 414 हरेन्द्र पाल सिंह
5. का0 1600 अश्वनी राठी
6. का0 142 गुरमीत कुमार
7. का0 1308 प्रदीप कुमार